

Preposition

Part - 1

Preposition

→ At, on, in, to, with, from
After, Between - - - - - etc.

① Preposition के बाद objective Case का प्रयोग
होना है

Ex Talk to me.

Look at him.

②

Preposition + Verb + ing mode पर प्रयोग होता है

He refrains from taking tea.

~~Take~~

Taking

अपवाद - [To] + Verb की Infom

I want to become a doctor.
V_I

Classification of Prepositions

2.1 Prepositions of Direction

to, towards, for, along, against, across, up, down, into. Uses:

✓ (i) To का प्रयोग लक्ष्य (destination) बताने के लिए किया जाता है;

Example :

He is going to the station:



go to school

① superior, junior, exterior, senior, prefer
preferable + To का प्रयोग होता है

② kind, listen, go, amiable, invited, appointed
दयालु दयालु यौत मिथुन
+ To का प्रयोग होता है

क
ह
you should be kind - to - innocent birds.

Ram is senior ~~than~~ to Ram here.

(II) Towards का अर्थ है 'की ओर'. (in the direction of); यह दिशा बताता है, न कि लक्ष्य;



Example :

✱ He is going towards the station.

(III) For का प्रयोग भी Preposition of Direction के रूप में लक्ष्य (destination) बताने के लिए होता है;

Example :

He is leaving for Delhi tonight.

He is going to Delhi.

उद्देश्य

उद्देश्य बताने के लिए

He is going for cooking food.

He goes for reading.

for → अनिश्चित समय के लिए किया जाता है
उध दिने से, उध चंदे से

He has been living here for some years.

words ^{इंतजार}
जिम्मेदार ← wait
जिम्मेदार ← Responsible


योग्य ← eligible
योग्य ← Cut out

+ for का प्रयोग होता है

Ex I wait for bus.

He is cut out for this post

(IV) Along (के साथ, के किनारे-किनारे)



Examples :

He walks along the road. (न कि on the road)

She walks along the bank of the river.

→ नदी के किनारे-किनारे

(V) Against का प्रयोग कई अर्थों में होता है-

(i) प्रतिकूल, के विपरीत (opposite) e.g.

It is difficult to sail against current.
(धारा के विपरीत नाव खेना कठिन है)

(ii) से सटकर, से लगी (pressing on) e.g.

There is a ladder against the wall.

He is leaning against the tree.



(iii) के विरुद्ध (in contravention of) e.g.

One must not go against the laws of the country.

(किसी को देश के कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए।)

(VI) Across का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है-

(i) के उस पार (on the opposite side of) e.g.

My best friend lives across the river



(ii) इस पार से उस पार तक (from one side to another) e.g.

- A bridge is laid across the river.

(iii) दोनों तरफ (both sides) e.g.


- He threw the luggage across his shoulders. Across के कुछ अन्य प्रयोग

Sdf

(iv) go across (से होकर गुजरना) e.g.

- Rita and Ravi were going across the field.

→ से होकर गुजरना



(v) come across (अचानक मुलाकात होना) e.g.

- When I was going to market, I came across Mohan.
Come across के साथ कभी भी suddenly या with का प्रयोग नहीं होता है।

(VII) Up (ऊपर) e.g.

- He climbed up the tree.

(VIII) Down (नीचे) e.g.

Mani climbed down the tree.

2.2 Prepositions of Place/Position

at, in, on, above, below, over, under, between, among, amongst, amid, amidst, before, behind.

(I) At (में) का प्रयोग छोटे स्थानों के नामों के पहले:

Examples:

- He lives at Samastipur.
- They are at home.

Correct समय से पहले

Station, window, Bus stand
Door, table.

Ex There is a boy ^{घर पर} ~~on~~ at the gate.

Words

~~आश्चर्यचकित~~

Surprised

~~भौंकना~~

Bark

~~भजाक~~

Mock

~~बनाना~~

laugh

~~पेशान~~

Annoyed

~~खुश~~

Happy

Ex He gets up ~~on~~ at 7 o'clock.

+ At का प्रयोग होता है

Ex you should not laugh ~~on~~ ^{at} the poor.

Ex I was surprised at your result.

मे year, month → Preposition in का प्रयोग होता है

(II) In (मे) का प्रयोग बड़े स्थानों के नामों के पहले;

Examples : motionless & Noun के लिए In का प्रयोग होता है

- You live in Kolkata.
- We live in India.

I am in the class
You are in Delhi.

(III) On (पर) का प्रयोग स्थान के लिए;

Examples :

- The books are lying on the table.
- There is a cap on his head.

Words

involve

शामिल
करना

उलझाना Entangle

अजनबी Strange

अदभुत Unique

+ in का प्रयोग होता है

||
you must not involve me
in your troubles.